

पुलिस मुठभेड में 25 हजार रुपये का एक इनामी व गैंगस्टर एक्ट में वाछित चल रहा अभियुक्त (घायल)

गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल व अवैध असलाह बरामद:- थाना निवाडी पुलिस द्वारा दिनांक 01-08-19 को दौराने चैकिंग डिडौली फिरौजपुर चौराहे पर समय करीब 00.25 बजे रात्री में एक मोटरसाईकिल नं. UP23D1350 पर सवार 02 संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का इशारा किया गया पर नही रुके तथा भागते हुए जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया पुलिस पार्टी की जवाबी फायरिंग में बदमाश **राशिद पुत्र शाहबुद्दीन नि0 बडी मस्जिद के पास कस्बा पतला थाना निवाडी गा0बाद** के पैर में गोली लगने से घायल हो गया है जिसको गिरफ्तार कर उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुरादनगर में भर्ती किया गया है, इसका एक साथी अंधेरे व खडी फसल का फायदा उठाकर मौके से भागने मे सफल रहा जिसकी तलाश जारी है व गिरफ्तार अभियुक्त थाना मोदीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 656/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वाछित चल रहा था जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त थाना इन्द्रापुरम पर पंजीकृत मु0अ0सं0 77/19 धारा 379 भादवि0 से सम्बन्धित चोरी की एक ग्लैमर मोटरसाईकिल नं. UP23D1350 व 01 तमंचा .315 बोर मय 02 खोका, 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए है। मुठभेड के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 175/19 धारा 307/414/411 भादवि बनाम राशिद उपरोक्त व एक अन्य नाम पता अज्ञात एवं मु0अ0सं0 176/19 धारा 3/25 आर्मस एक्ट बनाम राशिद उपरोक्त पंजीकृत हुए है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

- 1- राशिद पुत्र शाहबुद्दीन नि0 बडी मस्जिद के पास कस्बा पतला थाना निवाडी गा0बाद
- 2- एक अभियुक्त फरार नाम पता अज्ञात

बरामदगी-

- 1- एक .315 बोर का तमंचा 02 जिन्दा कारतूस 02 खोखा कारतूस
- 2- एक अदद मो0सा0 ग्लैमर नं. UP23D1350 (थाना इन्द्रापुरम पर पंजीकृत मु0अ0सं0 77/19 धारा 379 भादवि0 से सम्बन्धित)

अभि0 राशिद का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 1108/18 धारा 395/412 भादवि थाना मोदीनगर गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 16/19 धारा 395/412 भादवि थाना मोदीनगर गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 218/19 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना मोदीनगर गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0 656/19 धारा 2/3 गै0अधि0 थाना मोदीनगर गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0 175/19 धारा 307/414/411 भादवि थाना निवाडी गाजियाबाद।
6. मु0अ0सं0 176/19 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना निवाडी गाजियाबाद।

चोरी/लूट करने वाले दो शातिर अभियुक्त गण को मय चोरी की मोटर साईकिल व दो अदद

तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस व एक खोखा सहित गिरफ्तार- थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दिनांक 02.08.19 को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गण जो चोरी की मोटर साईकिल से रात्री मे लूट करने के उद्देश्य रेगुलेटर के पास आ रहे जिनको रुकने को कहा तो अभियुक्त गण (1) रुसतम पुत्र यासीन निवासी

निकट झोड ग्राम अबुपुर थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद (2) वसीम पुत्र यासीन निवासी निकट चौराहा ग्राम अबुपुर थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिससे पुलिस पार्टी बाल बाल बच गयी और अभियुक्त गण को समय रात्रि 02.00 बजे रेगुलेटर गंगनहर पटरी से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से दो अदद तमंचे मय दो जिन्दा कारतूस मय एक खोखा कारतूस नाल में फसा हुआ बरामद हुआ। जिन्होंने पूछताछ पर बताया कि उक्त बरामद मोटरसाइकिल हमने थाना मोदीनगर क्षेत्र से चोरी की थी गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी जो आस पास के क्षेत्र में आने जाने वाले राहगिरो से तमंचा दिखाकर लूट/चोरी करते हैं।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण-

- (1) रुसतम पुत्र यासीन निवासी निकट झोड ग्राम अबुपुर थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद।
- (2) वसीम पुत्र यासीन निवासी निकट चौराहा ग्राम अबुपुर थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास अभि0 रुसतम-

- 1- मु0अ0सं0 639/19 धारा 307/414/482 भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद।
- 2- मु0अ0सं0 640/19 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना मुरादनगर गाजियाबाद बनाम रुसतम।
- 3- मु0अ0सं0 501/19 धारा 394 थाना मुरादनगर गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास अभि0 वसीम-

- 1- मु0अ0सं0 639/19 धारा 307/414/482 भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद।
- 2- मु0अ0सं0 641/19 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना मुरादनगर गाजियाबाद।
- 3- मु0अ0सं0 501/19 धारा 394 थाना मुरादनगर गाजियाबाद।

बरामदा सामान-

- 1- थाना मोदीनगर से सम्बन्धित चोरी की मोटर साईकिल नम्बर UP14CS 3571
- 2- घटना में प्रयुक्त दो अदद तमंचे मय दो जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस 315 बोर

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा छुरी सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दिनांक 02.08.19 को समय 13.20 बजे मौहल्ला नूरगंज ईदगाह के पास से अभियुक्त शानू उर्फ शानू मौहम्मद पुत्र नवाब निवासी मौहल्ला कथानान थाना मुरादनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से 01 अदद छुरी बरामद हुई है जिसके सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर मु0अ0सं0- 642/19 धारा 4/25 आर्म्स ऐक्ट पंजीकृत है।